



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ 1933 (श10)
(सं0 पटना 329) पटना, शुक्रवार, 15 जुलाई 2011

सं0 सं0 उ0 नि0-20/09-35/रा0

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

संकल्प

5 जुलाई 2011

विषय :- द्वितीय राजभाषा उर्दू पुरस्कार योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान चयन समिति का गठन।

द्वितीय राजभाषा उर्दू पुरस्कार योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 अन्तर्गत प्रकाशन अनुदान के निमित्त प्राप्त पाण्डुलिपियों में से अनुदान योग्य पाण्डुलिपियों के चयन तथा राशि के निर्धारण के लिए सरकार को अनुशंसा उपलब्ध कराने हेतु चयन समिति का गठन निम्नरूप से किया जाता है:-

- (i) प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार सरकार, पटना — अध्यक्ष
- (ii) डॉ0 इसराईल रजा,
उर्दू विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना — सदस्य
- (iii) डा0 अजीमुल्लाह,
उर्दू विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना — सदस्य
- (iv) निदेशक (उर्दू), उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय
विभाग, बिहार, पटना — सदस्य सचिव

2. उक्त समिति के लिए कोरम अध्यक्ष सहित एक तिहाई होगा।

3. यह समिति वित्तीय वर्ष 2011-12 अन्तर्गत उर्दू पाण्डुलिपि प्रकाशन अनुदान की स्वीकृति हेतु चयन की अनुशंसा के लिए गठित रहेगी।

4. समिति पाण्डुलिपियों के चयन और अनुदान की राशि पर अपनी अनुशंसा अन्तिम निर्णय हेतु सरकार के समक्ष उपस्थापित करेगी।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि जन साधारण की जानकारी हेतु इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाएगा तथा इसकी पचास प्रति उर्दू निदेशालय को उपलब्ध कराई जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

रविकान्त,

सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 329-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>